

सोशल

मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ़

पत्र संख्या:- 21/प्रेसनोट/2021

09 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-पवई

16 कुन्तल 45 किलो ग्राम नाजायज गांजा जिसकी कुल कीमत 35-40 लाख रुपये, 3,00,000/-

(तीन लाख रुपया) नकद, अवैध असलहा-कारतूस व मोटरसाईकिल के साथ एक तरकर

गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर सिंह के निर्देशन पर जनपद भर में अपराधियों के विरुद्ध लगातार चालाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पवई मय हमराह द्वारा अपराध एवं अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग मे दिनांक-08.01.2021 को कस्बा पवई बाजार में मौजूदगी के दौरान द्वितीय स्वाट टीम प्रभारी उ.नि. श्री बृजेश सिंह मय हमराह के साथ इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के उद्देश्य से कस्बा पवई से अपने-अपने वाहन से प्रस्थान होकर सुल्तानपुर गांव के पास लखनऊ बलिया हाइवे मार्ग जो निर्माणाधीन है के पास से खण्डौरा मार्ग की तरफ जा रहे थे कि खण्डौरा से काफी पहले सूनसान सड़क पर एक व्यक्ति गाड़ी की रोशनी में मोटरसाईकिल खडाकर उसपर बैठा हुआ दिखायी दिया कि हम पुलिस वालों की गाड़ी की नीली बत्ती को देखकर मो.सा. पर बैठा व्यक्ति अपनी मो.सा. को चालू कर भागने का प्रयास किया संदेह होने पर पुलिस टीम अपनी-अपनी गाड़ी को और तेजी से चलाते हुए जैसे ही नजदीक पहुंचे तो मो.सा. चालक हम पुलिस वालों को अपने पास आता देख मो.सा. छोड़कर अर्धनिर्मित हाइवे की तरफ भागने का असफल प्रयास किया कि हम पुलिसवाले अपनी-अपनी गाड़ी से जल्दी से उतरकर दबिश देकर समय करीब 09:40 बजे पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम राजमन यादव पुत्र स्व. विदेशी यादव निवासी ग्राम इमादपुर थाना बसखारी जिला अम्बेडकरनगर बताया।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं उडिसा के गांजा मंगवाया हूं जो अम्बेडकर नगर व्यापारीयो को बेचने के लिये ले जाने के फिराक मे था। जिसकी तलाशी लिया गया तो उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। जिसके पश्चात पकड़े गये व्यक्ति के निशादेही पर प्लास्टिक के 47 बोरियो मे नाजायज गाजा होना बताने पर पकड़े गये व्यक्ति के सहमति से सक्षम मजिस्ट्रेट व राजपत्रित अधिकारी लालागंज/फूलपुर आजमगढ़ के समक्ष बरामद नाजायज गांजा का माप तौल किया गया तो 16 कुन्तल 45 किलो ग्राम नाजायज गांजा व बरामद मोटर साईकिल की डिग्गी से 3,00,000/- (तीन लाख रुपया नकद मात्र) बरामद हुआ।

अभियुक्त का नाम-पता

राजमन यादव पुत्र स्व. विदेशी यादव निवासी ग्राम इमादपुर थाना बसखारी जिला अम्बेडकरनगर।

पंजीकृत अभियोग

1-मु.अ.सं.04/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना पवई जनपद आजमगढ़

2- मु.अ.सं.05/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राजमन यादव पुत्र स्व. विदेशी यादव निवासी ग्राम इमादपुर थाना बसखारी जिला अम्बेडकरनगर

बरामदगी

1. 01 अदद तमंचा , 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. 16 कुन्तल 45 किलो ग्राम नाजायज गांजा
3. 3,00000/-रुपया नकद
4. 01 अदद मोबाईल किपैड (लावा)
5. 01 अदद मोटर साईकिल सुपर स्प्लैण्डर

पुलिस टीम

1. SO अयोध्या तिवारी थाना पवई आजमगढ
2. उ.नि. बृजेश कुमार सिंह स्वाट टीम आजमगढ
3. का. उपेन्द्र यादव थाना पवई आजमगढ
4. का. चन्द्रजीत यादव थाना पवई आजमगढ
5. का. अतिकुल्ला खाँ थाना पवई आजमगढ
6. का. मानिक चन्द्र थाना पवई आजमगढ
7. म.का. स्वाति तिवारी थाना पवई आजमगढ
8. हे.का.संजय कुमार दुबे स्वाट टीम आजमगढ
9. हे.का. विनोद सरोज स्वाट टीम आजमगढ
10. का. प्रदीप कुमार पाण्डेय स्वाट टीम आजमगढ
11. का. शनि नागर स्वाट टीम आजमगढ

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस टीम को 10 हजार रुपए से पुरस्कृत किया गया